

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 1970/फाल्गुन 25, 1891

No. 94] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 1970/PHALGUNA 25, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March 1970

S.O. 1091.—In pursuance of sub-rule (2) of rule II of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information :—

FORM 7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of states by the elected members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly.

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
(1)	(2)	(3)
1.	Chakrapani Jagannath Prasad Shukla	Mukam & Post Balodabazar, District Raipur
2.	Jagdish Chandra Rishi	Rishi Kutir, Bilaspur (M.P.)
3.	Balramdas Durgadas	Behru Basti, Gurh Road, Rewa (M.P.)
4.	Bhawaniprasad Tiwari	1358, Wright Town, Jabalpur (M.P.)
5.	Rameshwar Agnibhoj	113, Malviya Nagar, Bhopal.

(1)	(2)	(3)
6. Roopnarayan Tiwari	M.L.As Rest House, Block No. 1, Room No. 65, Bhopal.	
7. Vijayabhushan Deosharan	Aaram Niwas, Jashpur Nagar, District Raigarh (M.P.).	
8. Vinayakrao Uike	Aadivasi Sewa Sadan, P.O. Nainpur, District Mandla (M.P.).	
9. Sr. Ku. Sambhajirao Angre Chandroji	Angre Ki Goth, Post Lashkar (Gwalior) (M.P.).	
10. Sawaisingh Mohabbat Singh	Tagore Marg, Barnagar, District Ujjain (M.P.).	
11. Sujanmal Jain	Ranapur, District Jhabua (M.P.).	
12. Suryadeo Vishwanath	Birla Nagar, Gwalior.	
13. Harishchandra Gulabdas Rishi	Tehsil Rajnandgaon, District Durg (M.P.).	

PLACE : Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhavan, Bhopal.

(Sd.) MADAN GOPAL,
Returning Officer.

DATE : 11th March, 1970
(Phalgun 20, 1891)

[No. 318/M. P./70]

By Order,
A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च 1970

एस० एन० 1091.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित सर्वेसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

प्ररूप—7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	चक्रपाणी जगन्नाथप्रसाद शुक्ल	मुकाम व पोस्ट बलौदा बाजार, जिला रायपुर ।
2.	जगदीशचन्द्र ऋषि	ऋषि कुटीर, विलासपुर, मध्य प्रदेश ।

1	2	3
3. बलरामदास दुर्गादाम	नेहरू बस्ती, गृह गेड, रीवा, मध्य प्रदेश ।	
4. भवानी प्रसाद तिवारी	1358, राइट टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।	
5. रामेश्वर अग्निभोज	113, मालवीय नगर, भोपाल ।	
6. रूपनारायण तिवारी	विधायक निवास गृह, खण्ड नं० 1, कमरा नं० 65, भोपाल ।	
7. विनयभूषण देवशरण	आराम निवास, जशपुर नगर, जिला रायगढ़, मध्य प्रदेश ।	
8. विनायकराव उयके	आदिवासी सेवासदन, पो० नैनपुर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश ।	
9. सर० कु० सम्भाजीराव आंग्रे चन्द्रौजी	आंग्रे की गैठ, पो० लश्कर (खालियर), म० प्र० ।	
10. सवाईसिंह मोहनवतसिंह	टैगोर मार्ग, बठनगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश ।	
11. सुजानमल जैन	रानापुर, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश ।	
12. सूर्यदेव विश्वनाथ	बिरला नगर, खालियर ।	
13. हरिप्रचन्द्र गुलाबदास ऋषि	तहसील राजनन्दगांव, जिला दुर्ग, मध्य प्रदेश ।	

स्थान : मध्य प्रदेश विधान सभा
भवन, भोपाल ।

दिनांक : 11 मार्च, 1970
(फाल्गुन 20, 1891)

(ह०) मदन गोपाल,
रिटर्निंग आफिसर ।
[सं० 318/म० प्र०/70]
आदेश से,
ए० एन० सेन, सचिव ।

